



पावर फाइनेंस
कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एक महारत्न पीएसयू



बेहतर भविष्य के
लिए निधियन

≡ कार्य-निष्पादन संबंधी विशेषताएं

31 दिसंबर, 2021 को समाप्त
तिमाही



विषय-सूची

क. पीएफसी एक नज़र में

ख. एकल कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं
2. अर्जन संबंधी अद्यतन
3. परिसंपत्ति गुणवत्ता
4. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन
5. शेयरधारक आउटलुक

ग. समेकित कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं



क. पीएफसी एक नज़र में

≡ विद्युत क्षेत्र में मुख्य वित्तपोषक



अधिकांशतः भारत
सरकार के
स्वामित्वाधीन



विद्युत क्षेत्र में सरकार
का महत्वपूर्ण वित्तीय
भागीदार



‘एएए’ की सर्वोच्च
दीर्घावधि घरेलू रेटिंग



#365 फोर्ब्स ग्लोबल’2021
के अनुसार परिसंपत्तियों
के संबंध में विश्व में
स्थान


FORTUNE

#29 फॉर्च्यून 500
इंडिया’2021 में स्थान

→ 12 अक्टूबर, 2021 को सरकार द्वारा प्रदत्त
सीपीएसई हेतु “महारत्न” की सर्वोच्च स्थिति

→ सभी सीपीएसई(यों) में से विशालतम तुलन-पत्र

≡ पीएफसी समूह संरचना



An illustration of two wind turbines on the left side of the slide. The turbines are grey with three blades each, and the tips of the blades are red. They are set against a background of green hills and a blue sky with a few birds.

ख. एकल कार्य-निष्पादन




एकल कार्य-निष्पादन



1.

विशेषताएं

9माह'22 के परिप्रेक्ष्य में





एकल कार्य-निष्पादन



2.

अर्जन संबंधी अद्यतन



राजस्व एवं वृद्धि

(रुपए करोड़)

विवरण

ब्याज आय

ति3 विव 22

ति3 विव 21

9माह विव 22

9माह विव 21

9,297

9,327

27,718

27,270

ब्याज व्यय

5,688

5,885

17,289

17,391

निवल ब्याज आय

3,609

3,442

10,429

9,879

कर पश्चात लाभ

2,380

2,333

7,412

6,117

कुल व्यापक आय

2,409

2,466

7,706

6,161

(समाप्त वर्ष- मार्च)

कुछ आंकड़ों को विश्लेषण के उद्देश्य से पुनर्समूहबद्ध/पुनर्वर्गीकृत किया गया हो सकता है। अतः वे रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते हैं।

≡ महत्वपूर्ण अनुपात

(% में अनुपात)

विवरण

अर्जक परिसंपत्तियों पर आय

ति3 विव 22

10.21

ति3वि 21

10.68

9माह 22

10.33

9माह 21

10.68

निधियों की लागत

7.18

7.48

7.33

7.51

अर्जक परिसंपत्तियों पर
ब्याज स्प्रेड

3.03

3.20

3.00

3.17

अर्जक परिसंपत्तियों पर
निवल ब्याज मार्जिन

3.70

3.63

3.69

3.67

सीआरएआर

22.68

20.21

22.68

20.21

नेट वर्थ (शेयर पूंजी + सभी
रिसर्व)

58,472 करोड़ रुपए

52,015 करोड़ रुपए

58,472 करोड़ रुपए

52,015 करोड़ रुपए

(समाप्त वर्ष- मार्च)

अनुपात वार्षिक और दैनिक औसत पर आधारित तथा पूर्णांकित होते हैं।



एकल कार्य-निष्पादन



3.

परिसंपत्ति गुणवत्ता




परिसंपत्ति गुणवत्ता स्नैपशॉट




31.12.2021 तक 3,71,649 करोड़ रूप आए ऋण बुक


पिछले 3 वर्ष में न्यूनतम निवल एनपीए




सरकारी क्षेत्र



निजी क्षेत्र



निष्पादक परिसंपत्तियां



पर्याप्त प्रावधान
स्तरों के कारण
एक लचीला
तुलन-पत्र

≡ प्रावधान संबंधी स्नैपशॉट-31.12.2021



(करोड़ रुपए में)



31.12.2021 तक
प्रावधान की स्थिति

चरण III परिसंपत्तियों (एनपीए)
के निमित्त 67% प्रावधान

	चरण I & II	चरण III	चरण III सकल ऋण परिसंपत्तियों के % के रूप में	कुल
बकाया ऋण परिसंपत्तियां				
- सरकारी क्षेत्र	3,10,008	-	-	3,10,008
- निजी क्षेत्र	39,136	22,505	-	61,641
कुल बकाया	3,49,144	22,505	6.06%	3,71,649
कुल प्रावधान	2,779	15,086	-	17,865
निवल परिसंपत्तियां	3,46,365	7,419	2.00%	3,53,784

नोट - सभी ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में इंड एस के अंतर्गत अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) कार्यविधि के अनुसार प्रावधान किया गया है।

≡ समाधान स्थिति

चरण III परिसंपत्तियां

चरण III में
22,505 करोड़ रुपए
की ऋण
परिसंपत्तियों की
समाधान स्थिति



एनसीएलटी के अधीन



एनसीएलटी में 16,688 करोड़ रुपए

16 परियोजनाएं

69% प्रावधान



एनसीएलटी के बाहर



एनसीएलटी से बाहर 5,817 करोड़ रुपए का समाधान किया जा रहा है

11 परियोजनाएं

60% प्रावधान



एकल कार्य-निष्पादन



4.

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन




≡ ऋण परिसंपत्ति - संरचना

(रुपए करोड़ में)

	31.12.2021 तक	31.12.2020 तक
सकल ऋण परिसंपत्तियां	3,71,649	3,65,031
योजना-वार		
उत्पादन	2,18,295	2,34,135
- परंपरागत उत्पादन	1,80,080	1,95,454
- नवीकरणीय ऊर्जा	38,215	38,681
• नवीकरणीय ऊर्जा – बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं (>25मेगावाट)	15,989	17,617
• नवीकरणीय ऊर्जा – बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं से अन्य	22,226	21,064
पारेषण	29,005	30,378
वितरण	1,22,018	98,388
अन्य	2,331	2,130
क्षेत्र-वार		
सरकारी क्षेत्र	3,10,008	3,06,043
निजी क्षेत्र	61,641	58,988

Loan Asset Mix




≡ संवितरण संरचना

(रुपए करोड़ में)

	ति3 विव 22		ति3 विव 21		9माह विव 22		9माह विव 21	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
संवितरण	9,098	100%	13,847	100%	34,590	100%	59,943	100%
योजना-वार								
उत्पादन	3,544	39%	1,763	13%	12,517	36%	22,527	38%
पारेषण	1,544	17%	1,104	8%	2,510	7%	4,144	7%
वितरण	3,645	40%	10,959	79%	19,180	55%	33,119	55%
अन्य	364	4%	21	0.1%	383	1.1%	153	0.3%
क्षेत्र-वार								
सरकारी क्षेत्र	7,192	79%	12,797	92%	28,149	81%	53,459	89%
निजी क्षेत्र	1,906	21%	1,050	8%	6,441	19%	6,484	11%

≡ 31.12.2021 तक दायित्व मिक्स

एफसीएल के लिए 5 वर्ष
की अवशिष्ट परिपक्वता
तक 91% विनिमय
जोखिम हैज किया गया



1. जैसे सीसी/ओडी/लाइन ऑफ क्रेडिट/एलएफडी।




एकल कार्य-निष्पादन



5.

शेयरधारक आउटलुक

≡ 31.12.2021 तक शेयरधारक आउटलुक



इक्विटी अनुपात ऊपर की ओर संभावित संकेत देते हैं

ईपीएस
(वार्षिक)

37.44 रुपए

प्रति शेयर बुक
मूल्य

221.48 रुपए

अर्जक अनुपात की
कीमत

3.20

बुक मूल्य अनुपात
की कीमत

0.54

उपर्युक्त अनुपात ति3'22 के लिए हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीएसई से अंतिम उपलब्ध समापन शेयर मूल्य पर आधारित हैं।



ग. समेकित कार्य-निष्पादन



समेकित कार्य-निष्पादन



1.

विशेषताएं

समेकित स्नैपशॉट

कर पश्चात लाभ



→ 9माह'22 में 14,483 करोड़ रुपए बनाम
9माह'21 में 11,810 करोड़ रुपए

कुल आय



→ 9माह'22 में 57,472 करोड़ रुपए बनाम
9माह'21 में 53,545 करोड़ रुपए

निवल ब्याज आय



→ 9माह'22 में 22,843 करोड़ रुपए बनाम
9माह'21 में 19,678 करोड़ रुपए



ऋण परिसंपत्तियां

→ 9माह'22 में 7,60,409 करोड़ रुपए बनाम
9माह'21 में 7,22,098 करोड़ रुपए



निवल एनपीए

→ 9माह'22 में 1.86% बनाम 9माह'21 में
2.12%

महत्वपूर्ण समेकित वित्तीय विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण

ब्याज आय

ति3 विव 22

ति3 विव 21

9माह विव 22

9माह विव 21

19,009

18,227

56,626

53,117

ब्याज व्यय

11,235

11,330

33,783

33,439

निवल ब्याज आय

7,774

6,897

22,843

19,678

कर पश्चात लाभ

4,905

3,963

14,483

11,810

कुल व्यापक आय

5,362

4,280

15,253

12,309

(समाप्त वर्ष- मार्च)

कुछ आंकड़ों को विश्लेषण के उद्देश्य से पुनर्समूहबद्ध/पुनर्वर्गीकृत किया गया हो सकता है। अतः वे रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते हैं।



धन्यवाद

पीएफसी के वित्तीय कार्य-निष्पादन संबंधी प्रश्नों के लिए, आप investorrelations@pfcindia.com पर पीएफसी निवेशक संबंध टीम से संपर्क कर सकते हैं।

निवेशकों के लिए संपर्क सूचना

54 ईसी पूंजीगत
अभिलाभ बाँड
में निवेश



54ECinvestorcell@pfcindia.com

सभी के लिए
बाँड संबंधी पूछताछ



bondsinvestorcell@pfcindia.com

≡ अस्वीकारोक्ति



- ▷ प्रस्तुतीकरण 31.12.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी के समेकित/एकल गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।
- ▷ इंड-एस वित्तीय परिणामों और अतिरिक्त प्रकटीकरणों को अद्यतन, संशोधित या संशोधित किए जाने की संभावना है क्योंकि समायोजन जो नए मानकों की शुरुआत या इसकी व्याख्या, विनियामक निकायों और /या भारतीय रिजर्व बैंक से दिशानिर्देशों या परिपत्रों की प्राप्ति के कारण किए जाने की आवश्यकता हो सकती है
- ▷ इस प्रस्तुतिकरण में ऐसे कथन हो सकते हैं जो प्रबंधन के वर्तमान विचारों और अनुमानों को दर्शाते हैं और इन्हें भविष्योन्मुखी कथनों के रूप में माना जा सकता है। भविष्य में अनिश्चितताएं और जोखिम शामिल हैं जो वास्तविक परिणाम व्यक्त किए जा रहे वर्तमान विचारों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। संभावित अनिश्चितताओं और जोखिमों में सामान्य आर्थिक स्थिति, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, प्रतिस्पर्धी उत्पाद और मूल्य निर्धारण दबाव, औद्योगिक संबंध और नियामक विकास जैसे कारक शामिल हैं।
- ▷ हम भविष्योन्मुखी बयानों को पूर्वव्यापी रूप से अपडेट नहीं करते हैं। इस तरह के बयान प्रकाशन की तारीख पर वैध हैं और उन्हें हटाया जा सकता है।
- ▷ आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुनःसमूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया जाता है।
- ▷ 'विश्लेषणात्मक डेटा' व्यवसाय की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए सर्वोत्तम अनुमान हैं और रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को समाधान करने के लिए नहीं हैं।
- ▷ केवल गैर-कीमत संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।
- ▷ यह प्रस्तुतिकरण केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है और पीएफसी की किसी भी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने के लिए एक प्रस्ताव या सिफारिश नहीं है। प्रस्तुतिकरण में निहित जानकारी के आधार पर आपके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अकेले आपकी जिम्मेदारी है और पीएफसी या उसके निदेशक या कार्मिक आपके द्वारा की गई ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे।